



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3— Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 335]
No. 335]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 20, 1979/श्रावण 29, 1901
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 20, 1979/SHRAVANA 29, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1979

कां०शा० 475 (अ).—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां प्रादेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 8 की उपधारा (1) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के खण्ड (घ) के अधीन, किया गया निम्नलिखित प्रादेश एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

प्रादेश

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां प्रादेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 6 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन प्रादेश, 1976 में संशोधन करने के लिए निर्वाचन आयोग की प्रस्थापनाएं भारत के राजपत्र और उत्तर प्रदेश राज्य के राजपत्र में तारीख 9 नवम्बर, 1977 को प्रकाशित की गई थीं;

और, इस आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में उक्त प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त सभी आप्रार्थों और सुझावों पर लखनऊ में तारीख 6 फरवरी और वाराणसी में तारीख 9 फरवरी, 1979 का को गई सार्वजनिक बैठकों में विचार किया गया था;

यह आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन प्रादेश, 1976 में (ऐसे प्रादेश में यथा-वर्धित किमी निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार में कोई परिवर्तन न करते हुए) निम्नलिखित संशोधन करता है :—

1. उक्त प्रादेश की अनुसूची II में—

सद 21—उत्तर प्रदेश के सामने, स्तम्भ 6 के नीचे, ग्रंथ “89” के स्थान पर, ग्रंथ “92” रखा जाएगा;

2. उक्त प्रादेश की अनुसूची 22 में—

(1) भाग-क संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में—

(1) 49-सैदपुर (अ०जा०) में निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार में “235-सादात” के स्थान पर “235-सादात (अ०जा०)” रखा जाएगा;

(2) 51-चन्दौली में, निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार में “238-चन्दौली” के स्थान पर “238-चन्दौली (अ०जा०)” रखा जाएगा;

(3) 57-चायल (अ०जा०) में, निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार में “280-मिराथू” के स्थान पर “280-मिराथू (अ०जा०)” रखा जाएगा;

(2) भाग-ख सभा निर्वाचन क्षेत्र में—

(1) निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और भाग “235-सादात” के स्थान पर “235-सादात (अ०जा०)” रखा जाएगा;

(2) निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम “238-चन्दौली” के स्थान पर, “238-चन्दौली (अ०जा०)” रखा जाएगा;

(3) निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या तथा नाम “280-मिराथू” के स्थान पर, “280-मिराथू (अ०जा०)” रखा जाएगा;

(प्रयाग लाल शकधर)

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त
[सं० 282/उ०प्र०/अ०जा०-अ०जा०/10/79]

प्रादेश से,

बी० नागसुब्रह्मण्यन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 1979

S.O. 475(E).—In pursuance of sub-section (1) of Section 8 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976, the following Order made by the Election Commission under clause (d) of sub-section (3) of Section 6 of the Act is hereby published :—

ORDER

Whereas under clause (a) of sub-section (3) of section 6 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976, the proposals of the Election Commission to amend the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976, were published in the Gazette of India and in the official Gazette of the State of Uttar Pradesh on 9th September, 1977;

And whereas all objections and suggestions received in relation to the said proposals relating to the State of Uttar Pradesh were considered by the Commission at public sittings held at Lucknow on 6th February, 1979 and at Varanasi on 9th February, 1979;

The Commission hereby makes the following amendments in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 (without altering the extent of any constituency as given in such Order) in respect of the State of Uttar Pradesh—

I. In Schedule II of the said Order, against item 21-Uttar Pradesh—under column 6, the figure “92” shall be substituted for the figure “89”.

II. In Schedule XXII of the said Order—

(1) in Part A—Parliamentary Constituencies—

- (i) In 49-Saidpur (SC), in the extent of the constituency, “235-Sadat (SC)” shall be substituted for “235-Sadat”;
- (ii) In 51-Chandauli, in the extent of the constituency, “238-Chandauli (SC)” shall be substituted for “238-Chandauli”; and
- (iii) In 57-Chall (SC), in the extent of the constituency, “280-Sirathu (SC)” shall be substituted for “280-Sirathu”.

(2) in Part B—Assembly Constituencies—

- (i) the serial No. and name of the constituency, “235-Sadat (SC)” shall be substituted for “235-Sadat”;
- (ii) the serial No. and name of the constituency, “238-Chandauli (SC)” shall be substituted for “238-Chandauli”; and
- (iii) the serial No. and name of the constituency, “280-Sirathu (SC)” shall be substituted for “280-Sirathu”.

S.L. SHAKDHER, Chief Election Commissioner of India

[No. 282/UP/SC-ST/79]

By order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.